

- Please check that this question paper contains **15** printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains **21** questions.
- Please write down the serial number of the question before attempting it.
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **15** हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में **21** प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

ACCOUNTANCY

लेखाशास्त्र

Time allowed : 3 hours

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Maximum Marks : 80

अधिकतम अंक : 80

General Instructions :

- This question paper contains **three** parts A, B and C.*
- Part A is **compulsory** for all candidates.*
- Candidates can attempt only **one** part of the remaining parts B and C.*
- All parts of the questions should be attempted at one place.*

सामान्य निर्देश :

- यह प्रश्न-पत्र **तीन** भागों में विभक्त है — क, ख और ग।*
- भाग क सभी छात्रों के लिए **अनिवार्य** है।*
- शेष भाग ख और ग में से कोई **एक** भाग हल करना है।*
- किसी प्रश्न के सभी भागों के उत्तर एक ही स्थान पर लिखिए।*

PART-A
ACCOUNTANCY

खण्ड-क
लेखाशास्त्र

1. On 31.1.2005 Janta Ltd. converted its Rs. 88,00,000, 6% debentures into equity shares of Rs. 20 each at a premium of Rs. 2 per share.
Pass necessary journal entries in the books of the company for redemption of debentures. 2

31.1.2005 को जनता लि. ने 88,00,000 रु. के 6% ऋणपत्रों का शोधन, 20 रु. वाले समता अंशों को 2 रु. प्रति अंश अधिलाभ पर निर्गमित करके परिवर्तित किया।
कंपनी की पुस्तकों में ऋणपत्रों के शोधन हेतु रोजनामचे में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए।

2. JCM Ltd. invited applications for issuing 20,000 equity shares of Rs. 20 each at a discount of 10%. The whole amount was payable on application. The issue was fully subscribed.
Pass necessary journal entries. 2

जे.सी.एम. लि. ने 20 रु. वाले 20,000 समता अंशों के 10% बट्टे पर निर्गमित करने हेतु आवेदन आमन्त्रित किये। सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान आवेदन के समय करना था। सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए।
रोजनामचे में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए।

3. P Ltd. purchased assets worth Rs. 1,80,000 from S Ltd. The payment was made by issuing equity shares of the face value of Rs. 100 each at a premium of Rs. 20 per Share.
Pass necessary journal entries. 2

पी. लि. ने एस. लि. से 1,80,000 रु. की सम्पत्तियाँ खरीदीं, जिसका भुगतान 100 रु. वाले समता अंशों को 20 रु. प्रति अंश अधिमूल्य पर निर्गमित करके किया गया।
रोजनामचे में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए।

4. Define partnership. 2
साझेदारी की परिभाषा दीजिये।

5. What is meant by issue of debentures as 'Collateral Security' ? 3
‘गौण प्रतिभूति’ के रूप में ऋणपत्रों के निर्गमन का क्या अर्थ है ?

6. Pappu and Munna are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3 : 2. The partnership deed provided that Pappu was to be paid salary of Rs. 2,500 per month and Munna was to get a commission of Rs. 10,000 per year. Interest on capital was to be allowed @5% per annum and interest on drawings was to be charged @ 6% per annum. Interest on Pappu's drawings was Rs. 1,250 and on Munna's drawings Rs. 425. Capital of the partners were Rs. 2,00,000 and Rs. 1,50,000 respectively, and were fixed. The firm earned a profit of Rs. 90,575 for the year ended 31.3.2004.

Prepare Profit and Loss Appropriation Account of the firm.

3

पप्पू तथा मुन्ना एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ का वितरण क्रमशः 3 : 2 के अनुपात में करते हैं। साझेदारी समझौते के अनुसार पप्पू 2,500 रु. प्रतिमास वेतन के तथा मुन्ना 10,000 रु. प्रतिवर्ष कमीशन प्राप्त करने के अधिकारी थे। पूँजी पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज देय था तथा आहरण पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से लगाना था। पप्पू तथा मुन्ना के आहरण पर ब्याज क्रमशः 1,250 रु. एवं 425 रु. था। उनकी स्थायी पूँजी क्रमशः 2,00,000 रु. तथा 1,50,000 रु. थी। 31.3.2004 को समाप्त हुए वर्ष में फर्म ने 90,575 रु. का लाभ कमाया। फर्म का लाभ-हानि नियोजन खाता बनाइये।

7. On 1.1.2005, Fast Computers Ltd. issued 20,00,000, 6% debentures of Rs. 100 each at a discount of 4%, redeemable at a premium of 5% after three years. The amount was payable as follows :

On application Rs. 50 per debenture.

Balance on allotment.

Record the necessary journal entries for issue of debentures.

4

1.1.2005 को फास्ट कम्प्यूटर्स लि. ने 100 रु. वाले 20,00,000, 6% ऋणपत्र 4% बट्टे पर निर्गमित किये। ऋणपत्रों का शोधन तीन वर्ष पश्चात् 5% अधिलाभ पर करना था। धनराशि निम्न प्रकार देय थी :

आवेदन पर 50 रु. प्रति ऋणपत्र,

शेष आबंटन पर।

ऋणपत्रों के निर्गमन हेतु रोजनामचे में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए।

8. On 1.1.2000, X Ltd. issued 5,00,000 8% debentures of Rs. 100 each, redeemable after 10 years. Debenture-holders were given the option to get their debentures redeemed at any time after 3 years at Rs. 105 per debenture. At the end of four years, debenture-holders holding 40,000 debentures exercised their option and got their debentures redeemed.

Record necessary journal entries for issue and redemption of debentures in the books of the company.

4

1.1.2000 को एक्स लि. ने 100 रु. वाले 5,00,000, 8% ऋणपत्र, जिनका शोधन 10 वर्ष पश्चात् होना था, का निर्गमन किया। ऋणपत्र धारकों को छूट (विकल्प) थी कि वे 3 वर्ष के पश्चात् किसी भी समय अपने ऋणपत्रों का शोधन 105 रु. प्रति ऋणपत्र की दर से करा सकते हैं। चार वर्षों के पश्चात् ऋणपत्र धारकों ने छूट (विकल्प) का उपयोग करते हुए अपने 40,000 ऋणपत्रों का शोधन करा लिया।

कम्पनी की पुस्तकों में ऋणपत्रों के निर्गमन तथा शोधन हेतु रोजनामचे में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए।

9. State the purposes for which securities premium amount can be used by a company. 4
वे उद्देश्य बताइये जिनके लिए कम्पनी प्रतिभूति अधिलाभ का उपयोग कर सकती है।

10. What is meant by reconstitution of a partnership firm ? Explain briefly any two occasions on which a partnership firm can be reconstituted. 4
साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का क्या अर्थ है ? ऐसे किन्हीं दो अवसरों को संक्षेप में समझाइये जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जा सकता है।

11. A, B and C were the partners in a firm, sharing profits in the ratio of 4:3:3. The firm was dissolved on 28.2.2005. After transfer of assets and external liabilities to Realisation Account the following transactions took place :

- (i) K, a creditor, to whom Rs. 6,000 were due to be paid, accepted office equipment at Rs. 4,000 and the balance was paid to him in cash.
- (ii) L, a creditor, to whom Rs. 16,000 were due to be paid, took over machinery at Rs. 20,000. Balance was paid by him in cash.
- (iii) An unrecorded liability of the firm Rs. 7,800 was paid by A.
- (iv) The loss on dissolution was Rs. 10,000.

Pass necessary journal entries for the above transactions in the book of the firm. 4

अ, ब तथा स एक फर्म में साझेदार थे, जो लाभों को क्रमशः 4:3:3 के अनुपात में बांटते थे। फर्म का 28.2.2005 को विघटन हो गया। सम्पत्तियों तथा बाह्य देयताओं को वसूली खाते में स्थानान्तरित करने के उपरान्त निम्नलिखित लेन-देन हुए :

- (i) क, एक लेनदार जिसे फर्म द्वारा 6,000 रु. का भुगतान करना था, ने कार्यालय संयन्त्र 4,000 रु. में स्वीकार किये तथा उसे शेष धनराशि का भुगतान नकद किया गया।
- (ii) ल, एक लेनदार जिसे फर्म द्वारा 16,000 रु. का भुगतान करना था, ने 20,000 रु. में मशीनरी ले ली तथा उसने शेष धनराशि का भुगतान नकद किया।
- (iii) फर्म में 7,800 रु. की एक अलिखित देयता थी जिसका भुगतान अ ने किया।
- (iv) विघटन पर 10,000 रु. की हानि हुई।

फर्म की पुस्तकों में उपरोक्त लेन-देनों की रोजनामचे में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए।

12. Ram and Mohan were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4 : 1. On 01.03.2005, they admitted Sohan as a new partner for $\frac{1}{3}$ rd share in the profits of the firm. They fixed the new profit sharing ratio as 4 : 2 : 3.

On the date of Sohan's admission, the firm had a JLP for Rs. 90,000 (surrender value Rs. 30,000). The P&L A/c on the date of admission showed a Balance of Rs. 32,000 (DR). The firm also had a reserve of Rs. 1,00,000.

Sohan is to bring Rs. 75,000 as premium for his share of goodwill.

Showing your calculations clearly, pass necessary journal entries to record the above transactions. 6

राम तथा मोहन एक फर्म में साझेदार थे जो लाभों को 4 : 1 के अनुपात में वितरित करते थे। दि. 1-3-2005 को उन्होंने सोहन को फर्म में 1/3 लाभ के अंश के लिए साझेदार बनाया। उन्होंने नया लाभ का अनुपात 4 : 2 : 3 निश्चित किया।

सोहन के प्रवेश के दिन फर्म में 90,000 रुपये की संयुक्त जीवन बीमा पालिसी थी जिनका समर्पण मूल्य 30,000 रुपये था। उसी दिन लाभ-हानि खाता 32,000 रुपये का नाम शेष दर्शा रहा था। फर्म में संचय की धनराशि 1,00,000 रुपये थी।

सोहन अपने अंश की ख्याति के लिए 75,000 रु. प्रीमियम के रूप में लाया।

अपनी गणना की स्पष्ट व्याख्या करते हुए उपरोक्त लेनदेनों के लिए रोजनामचे में प्रविष्टियाँ कीजिये।

13. E and F were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3 : 2. Their Balance Sheet on 28.2.2005 was as follows :

Liabilities	Amount Rs.	Assets	Amount Rs.
Creditors	25,000	Building	1,00,000
Outstanding expenses	5,000	Plant	40,000
Capital Accounts :		Stock	30,000
E — 90,000		Debtors	45,000
F — <u>1,20,000</u>	2,10,000	Cash	25,000
	<u>2,40,000</u>		<u>2,40,000</u>

On the above date the firm was dissolved. Stock was taken over by E at a discount of 10%. F took over debtors for Rs. 40,000. Plant was sold for Rs. 30,000 and building realised Rs. 80,000. F agreed to pay the creditors. E paid outstanding expenses. Expenses of realisation amounted to Rs. 7,500.

Prepare Realisation Account, Cash Account and Capital Accounts to close the books of the firm.

6

OR

Pass necessary journal entries to record the following at the time of dissolution of a partnership firm assuming that the Assets & third party liabilities have already been transferred to Realisation A/c :

- An unrecorded asset of Rs. 300 was taken over by 'A', one of the partners.
- Creditors were paid Rs. 14,000 in full settlement of their claims for Rs. 15,000.
- Sale of Sundry assets realised Rs. 1,95,000.
- 'B' (another partner) was to bear the expenses on dissolution, which amounted to Rs. 1,500/-.
- Value of Sundry liabilities including creditors at the time of dissolution was Rs. 1,90,000.
- 'A' takes over the loan payable to 'Mrs. A' Rs. 15,000.

6

ई. तथा एफ. एक फर्म में साझेदार थे जो लाभों को 3 : 2 के अनुपात में बांटते थे। 28.2.2005 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था :

देयताएँ	राशि रु.	सम्पत्तियाँ	राशि रु.
लेनदार	25,000	भवन	1,00,000
अदत्त खर्चे	5,000	प्लांट	40,000
पूँजी खाते :		स्टॉक	30,000
ई. 90,000		देनदार	45,000
एफ. <u>1,20,000</u>	2,10,000	रोकड़	25,000
	<u>2,40,000</u>		<u>2,40,000</u>

उपरोक्त तिथि को फर्म का विघटन हो गया। ई. ने 10% के बट्टे पर स्टॉक ले लिया। एफ. ने 40,000 रु. में देनदार ले लिए। प्लांट 30,000 रु. में बेचा गया तथा भवन से 80,000 रु. प्राप्त हुए। एफ. ने लेनदारों का भुगतान तथा ई. ने अदत्त खर्चों का भुगतान किया। वसूली खर्च 7,500 रु. थे।

फर्म की पुस्तकों को बंद करने हेतु वसूली खाता, रोकड़ खाता तथा साझेदारों के पूँजी खाते बनाइये।

अथवा

एक साझेदारी फर्म के समापन के समय यह कल्पना करते हुए कि सभी सम्पत्तियाँ तथा बाह्य देनदारियों को वसूली खाते में पहले से ही हस्तान्तरित किया जा चुका है, निम्नलिखित के लेखांकन हेतु रोजनामचे में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए :

- (अ) एक अलिखित सम्पत्ति जिसका मूल्य 300 रुपये था, 'अ' एक साझेदार ने ले लिया।
 - (ब) 15,000 रुपये के लेनदारों के दावे को 14,000 रुपये पूर्ण भुगतान स्वरूप दिये।
 - (स) समस्त सम्पत्तियों से 1,95,000 रुपये वसूल हुए।
 - (द) वसूली व्यय 1,500 रुपये जिसे 'ब' (एक अन्य साझेदार) वहन करेगा।
 - (य) फर्म के समापन के समय समस्त देनदारियाँ लेनदारों के सहित 1,90,000 रुपये की थीं।
 - (फ) 'अ' ने "श्रीमती अ" के देय ऋण 15,000 रुपये भी अपने ऊपर ले लिया।
14. Sonam Ltd. invited applications for issuing 10,000 equity shares of Rs. 10 each at a discount of 10%. Rs. 4 per share were payable on application and the balance after discount on allotment. Applications for 20,000 shares were received. Shares were allotted proportionately to all applicants. An applicant who was allotted 1,500 shares failed to pay the allotment money. His shares were, therefore, forfeited. The forfeited shares were re-issued at Rs. 6 per share as fully paid up. Pass necessary journal entries in the books of the company.

सोनम् लि. ने 10 रु. वाले 10,000 समता अंशों के 10% छूट पर निर्गमन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये। 4 रुपये प्रति अंश प्रार्थना पर तथा शेष छूट काटकर आबंटन पर देय थे। 20,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदकों को आनुपातिक आधार पर अंशों का आबंटन किया गया। एक अंशधारक जिसको 1,500 अंशों का आबंटन किया गया था, ने आबंटन राशि का भुगतान नहीं किया। उसके अंशों को जब्त कर लिया गया। जब्त किये गये अंशों का 6 रु. प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त के रूप में पुनः आबंटन किया गया। कम्पनी के रोजनामचे में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए।

15. M and N were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3 : 1. Their Balance Sheet as on 31.3.2004 was as follows :

Liabilities	Amount Rs.	Assets	Amount Rs.
Creditors	28,000	Cash	50,000
Bills Payable	40,000	Debtors	60,000
Outstanding Salary	2,000	Stock	40,000
Capital Accounts :		Plant	1,00,000
M 2,00,000		Land and Building	1,50,000
N <u>1,30,000</u>	3,30,000		
	<u>4,00,000</u>		<u>4,00,000</u>

On the above date 'O' was admitted as partner for $\frac{1}{4}$ th share in profits on the following terms :

- 'O' will bring Rs. 1,50,000 as his capital and Rs. 90,000 as his share of premium for goodwill for his share of profits.
- Plant is to be appreciated to Rs. 1,30,000 and the value of land and building is to be appreciated by 5%.
- Stock is overvalued by Rs. 6,000.
- A provision for bad and doubtful debts is to be created at 5% on debtors.
- There were unrecorded creditors Rs. 4,500/-

Prepare Revaluation Account, Partners' Capital Accounts and the Balance Sheet of the new firm.

OR

P, Q and R were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2 : 3 : 5. On 31.3.2004 their Balance Sheet was as follows :

Liabilities	Amount Rs.	Assets	Amount Rs.
Creditors	70,000	Bank	45,000
Capital Accounts :		Debtors	40,000
P	80,000	Less : provision	
Q	70,000	for doubtful debts	5,000
R	<u>60,000</u>	Stock	50,000
	2,10,000	Building	1,40,000
		Profit & Loss A/c	10,000
	<u>2,80,000</u>		<u>2,80,000</u>

On the above data R retired from the firm due to his illness on the following terms:

- (i) Building was to be depreciated by Rs. 40,000.
- (ii) Provision for doubtful debts was to be maintained at 20% on debtors.
- (iii) Salary outstanding Rs. 5,000 was to be recorded and creditors Rs. 4,000 will not be claimed.
- (iv) Goodwill of the firm was valued at Rs. 72,000 and the same was to be treated without opening goodwill account.
- (v) R was to be paid Rs. 15,000 in cash, through bank and the balance was to be transferred to his loan account.

Prepare Revaluation Account, Partners' Capital Accounts and the Balance Sheet of P and Q after R's retirement.

8

‘एम’ तथा ‘एन’ एक फर्म में साझेदार थे जो लाभों को 3 : 1 के अनुपात में बाँटते थे। 31.3.2004 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार था :

देयताएँ	राशि रु.	सम्पत्तियाँ	राशि रु.
लेनदार	28,000	रोकड़	50,000
देय बिल	40,000	देनदार	60,000
अदत्त वेतन	2,000	स्टॉक	40,000
पूँजी खाते :		संयन्त्र	1,00,000
एम.	2,00,000	भूमि तथा भवन	1,50,000
एन.	<u>1,30,000</u>		
	3,30,000		
	<u>4,00,000</u>		<u>4,00,000</u>

उपरोक्त तिथि को उन्होंने 'ओ' को लाभ में $\frac{1}{4}$ अंश के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एक नये साझेदार के रूप में प्रवेश दिया :

- 'ओ' 1,50,000 रु. पूँजी के लिए तथा लाभ में अपने अंश के लिए 90,000 रु. ख्याति के लिये प्रीमियम लायेगा।
 - संयन्त्र का मूल्य 1,30,000 रु. तक बढ़ाना है तथा भूमि एवं भवन के मूल्य को 5% बढ़ाना है।
 - स्टॉक का मूल्य 6,000 रु. अधिक है।
 - देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान करना है।
 - 4,500 रु. के लेनदारों को पुस्तकों में नहीं दर्शाया गया।
- पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूँजी खाते तथा नई फर्म का स्थिति विवरण बनाइये।

अथवा

पी., क्यू. तथा आर. एक फर्म में साझेदार थे जो लाभों को 2 : 3 : 5 के अनुपात में बांटते थे। 31.3.2004 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार था :

देयताएँ	राशि रु.	सम्पत्तियाँ	राशि रु.
लेनदार	70,000	बैंक	45,000
पूँजी खाते :		देनदार	40,000
पी. 80,000		घटा : संदिग्ध ऋण प्रावधान	5,000
क्यू. 70,000		स्टॉक	50,000
आर. <u>60,000</u>	2,10,000	भवन	1,40,000
		लाभ-हानि खाता	10,000
	<u>2,80,000</u>		<u>2,80,000</u>

उपरोक्त तिथि को बीमारी के कारण आर. ने निम्नलिखित शर्तों पर फर्म से अवकाश ग्रहण किया :

- भवन का मूल्यहास 40,000 रु. किया जायेगा।
- संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों के 20% के बराबर प्रावधान किया जायेगा।
- अदत्त वेतन 5,000 रु. का लेखा किया जायेगा तथा 4,000 रु. के लेनदार देय नहीं होंगे।
- फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 72,000 रु. किया गया तथा उसका समायोजन ख्याति खाता खोले बिना किया जायेगा।
- आर. को 15,000 रु. का नकद भुगतान बैंक के द्वारा किया जायेगा तथा शेष उनके ऋण खाते में स्थानान्तरित किया जायेगा।

पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूँजी खाते तथा आर. के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् पी. तथा क्यू. का स्थिति विवरण तैयार कीजिये।

PART-B
ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

खण्ड-ख
वित्तीय विवरणों का विश्लेषण

16. State whether the following transactions will result into inflow, outflow or no flow of funds :

- (i) Purchased machinery for cash Rs. 80,000.
- (ii) Paid to creditors Rs. 40,000.
- (iii) Converted Rs. 10,000 equity shares into 9% debentures.
- (iv) Issued equity shares Rs. 10,00,000 for cash.

2

बताइये कि निम्नलिखित लेन-देनों का कोष पर अन्तः-प्रवाह, बाह्य प्रवाह अथवा कोई प्रवाह नहीं होगा :

- (i) मशीनरी का नकद क्रय 80,000 रु.।
- (ii) लेनदारों को 40,000 रु. का भुगतान किया।
- (iii) 10,000 रु. के समता अंशों को 9% ऋणपत्रों में परिवर्तित किया।
- (iv) 10,00,000 रु. के समता अंशों का नकद निर्गमन किया।

17. What is meant by a 'Cash Flow Statement' ?

2

‘रोकड़ प्रवाह विवरण’ का क्या अर्थ है ?

18. Briefly explain the advantages of analysis of financial statements.

3

वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लाभों को संक्षेप में समझाइये।

19. The current liabilities of a company are Rs. 4,50,000. Its current ratio is 3 and liquid ratio is 1.60. Calculate the amount of Current Assets, Liquid Assets and Inventory.

3

एक कम्पनी की चालू देयताएँ 4,50,000 रु. हैं। इसका चालू अनुपात 3 तथा तरलता अनुपात 1.60 है। चालू सम्पत्तियों, तरल सम्पत्तियों तथा स्टॉक की गणना कीजिए।

20. On the basis of information given below, calculate any **two** of the following ratios:

- (i) Gross Profit Ratio;
- (ii) Debt-Equity Ratio and
- (iii) Working Capital Turnover Ratio.

Information :

	Rs.
Net Sales	3,75,000
Cost of goods sold	2,50,000
Current liabilities	1,20,000
Loan	60,000
Current Assets	4,25,000
Equity Share Capital	1,90,000
Debentures	75,000

4

नीचे दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** अनुपातों की गणना कीजिए :

- (i) सकल लाभ अनुपात;
- (ii) ऋण-समता अनुपात, तथा
- (iii) कार्यशील पूँजी आवर्त अनुपात।

सूचना :

	₹.
शुद्ध विक्रय	3,75,000
बेचे गये माल की लागत	2,50,000
चालू देयताएँ	1,20,000
ऋण	60,000
चालू सम्पत्तियाँ	4,25,000
समता अंश पूँजी	1,90,000
ऋणपत्र	75,000

21. Following are the Balance Sheets of XY Ltd. as on 31st March, 2003 and 2004 :

Liabilities	2003 Rs.	2004 Rs.	Assets	2003 Rs.	2004 Rs.
Share Capital	1,20,000	1,40,000	Goodwill	20,000	16,000
General Reserve	8,000	12,000	Building	76,000	96,400
Profit & Loss A/c	7,200	6,200	Investments	4,000	14,000
Proposed Dividend	11,200	20,200	Debtors	30,000	43,200
Bills Payable	14,000	21,200	Stock	34,000	31,200
Outstanding Expenses	14,400	15,200	Cash	6,800	11,200
			Preliminary Expenses	4,000	2,800
	1,74,800	2,14,800		1,74,800	2,14,800

You are required to :

- (i) Prepare schedule of changes in working capital.
- (ii) Calculate funds from operations, and
- (iii) Prepare a Funds Flow Statement.

6

OR

The following balances appeared in Plant Account and Accumulated Depreciation Account in the books of Bharat Ltd. :

Balance as at	31.3.2003 Rs.	31.3.2004 Rs.
Plant	7,50,000	9,70,000
Accumulated Depreciation	1,80,000	2,40,000

Additional Information :

Plant costing Rs. 1,45,000; accumulated depreciation thereon Rs. 70,000, was sold for Rs. 35,000.

You are required to :

- (i) Compute the amount of Plant purchased, depreciation charged for the year and loss on sale of plant.
- (ii) Show how each of the items related to the plant will be shown in the cash flow statement.

31 मार्च, 2003 तथा 2004 को एक्स. वार्ड. लि. के स्थिति विवरण निम्न प्रकार से थे :

देयताएँ	2003 रु.	2004 रु.	सम्पत्तियाँ	2003 रु.	2004 रु.
अंश पूँजी	1,20,000	1,40,000	ख्याति	20,000	16,000
सामान्य संचय	8,000	12,000	भवन	76,000	96,400
लाभ-हानि	7,200	6,200	निवेश	4,000	14,000
प्रस्तावित लाभांश	11,200	20,200	देनदार	30,000	43,200
देय बिल	14,000	21,200	स्टॉक	34,000	31,200
अदत्त खर्चे	14,400	15,200	रोकड़	6,800	11,200
			प्रारम्भिक खर्चे	4,000	2,800
	1,74,800	2,14,800		1,74,800	2,14,800

अपेक्षित :

- कार्यशील पूँजी परिवर्तन तालिका बनाइये।
- संचालन से प्राप्त कोष की गणना कीजिये, तथा
- कोष प्रवाह विवरण बनाइये।

अथवा

भारत लि. की पुस्तकों में संयन्त्र खाते तथा एकत्रित मूल्यहास खाते में निम्नलिखित शेष दर्शाए गये थे :

शेष	31.3.2003 रु.	31.3.2004 रु.
संयन्त्र	7,50,000	9,70,000
एकत्रित मूल्यहास	1,80,000	2,40,000

अतिरिक्त सूचना :

1,45,000 रु. लागत का संयन्त्र जिस पर एकत्रित मूल्यहास 70,000 रु. था 35,000 रु. में बेचा गया।

निम्नलिखित बताइए :

- वर्ष में क्रय किये गये संयन्त्र का मूल्य, लगाये गये मूल्यहास तथा विक्रय किये गये संयन्त्र पर हानि की गणना कीजिये।
- संयन्त्र से सम्बन्धित प्रत्येक मद रोकड़ प्रवाह विवरण में कैसे दर्शाई जायेगी ?

PART-C
COMPUTERISED ACCOUNTING

खण्ड-ग
अभिकलित्र लेखांकन

16. What is meant by Normilisation ? 2
सामान्यीकरण का क्या अर्थ है ?
17. What is data redundancy ? What problems are associated with it ? 3
समंक निरर्थकता क्या है ? इससे सम्बन्धित क्या-क्या समस्यायें हैं ?
18. What do you understand by unary, binary relation ? 2
इकहरे, दोहरे सम्बन्ध से आपका क्या तात्पर्य है ?
19. Conceptualise the accounting reality in terms of Entity Relation Model concepts. 3
लेखांकन वास्तविकता को ई. आर. मॉडल धारणा के रूप में संकल्पित कीजिए।
20. Develop and depict an Entity Relationship Model for this accounting reality. 3
लेखांकन वास्तविकता के लिए एक ई. आर. मॉडल विकसित एवं चित्रित कीजिए।
21. Show the database design in terms of relevant data tables and their inter relationships. 3+4 = 7

आंकड़ों पर आधारित अभिकल्प (डिज़ाइन) को प्रासंगिक आंकड़ों की सारणी के रूप में दिखाइये तथा उनके अन्तर्सम्बन्धों को बताइये।

Note : The above Q. 19—20 to be done with the following Vouchers :

Voucher 1

Voucher 0705

Date : May 07, 2004

M/s. Macrowell

Debit A/c : 110001

Cash Account

Credit Account

Sl. No.	Code	Name of A/c	Amount (Rs.)	Narration
1	120001	Furniture	12,000	Sale of Furniture

Authorised by
Gopal

Prepared by
Sarala

Voucher 2

Voucher 1105

Date : May 11, 2004

M/s. Macrowell

Credit A/c : 110001

Cash Account

Debit Account

Sl. No.	Code	Name of A/c	Amount (Rs.)	Narration
1	111111	Capital	10,000	Drawings

Authorised by
Gopal

Prepared by
Sarala

टिप्पणी : प्रश्न 19 से 21 तक के उत्तर निम्नलिखित प्रमाणकों की सहायता से दीजिये :

प्रमाणक 1

प्रमाणक 0705

दि. मई 07, 2004

मै. मैक्रोवैल

नाम खाता 110001

रोकड़-खाता

जमा खाता

क्रम संख्या	कोड	खाते का नाम	राशि (रु.)	सन्दर्भ
1	120001	फर्नीचर	12,000	फर्नीचर बेचा

अधिकृत
गोपाल

तैयार कर्ता
सरला

प्रमाणक 2

प्रमाणक 1105

दि.: मई 11, 2004

मै. मैक्रोवैल

जमा खाता : 110001

रोकड़-खाता

नाम खाता

क्रम संख्या	कोड	खाते का नाम	राशि (रु.)	सन्दर्भ
1	111111	पूँजी	10,000	आहरण

अधिकृत
गोपाल

तैयार कर्ता
सरला